



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 04 अप्रैल, 2024 ई०

(चैत्र 15, 1946 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-145/दस-लाइसेंस-60/वि०म०-2/थोक नियमावली/2023-24

प्रयागराज, दिनांक 04 अप्रैल, 2024 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-15

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-2-का संशोधन- उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य विदेशी मदिरा/बीयर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर ही संदेय होगी एवं जो आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व आसवनी/पूर्व यवासवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूलीय होगी तथा जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ग) “अतिरिक्त लाइसेंस फीस” का तात्पर्य एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी के लाइसेंसधारी द्वारा जिला जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जिला, जिसके लिये एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी लाइसेंस स्वीकृत नहीं हो सके हैं अथवा जहाँ आपूर्ति में बाधा हो, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी;

(घ) “बीयर” में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वित मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है,

(ङ) “प्रतिफल फीस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेयों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित फीस से है, जो आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा कोषागार में जमा की जाएगी;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य विदेशी मदिरा/बीयर के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर ही संदेय होगी एवं जो आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व आसवनी/पूर्व यवासवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूलीय होगी तथा जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ग) “अतिरिक्त लाइसेंस फीस” का तात्पर्य एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी के लाइसेंसधारी द्वारा जिला जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जिला, जिसके लिये एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी लाइसेंस स्वीकृत नहीं हो सके हैं अथवा जहाँ आपूर्ति में बाधा हो, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी;

(घ) “बीयर” में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वित मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है,

(ङ) “प्रतिफल फीस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेयों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित फीस से है, जो आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा कोषागार में जमा की जाएगी;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (च) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,
- (छ) “परिवार” का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित है, से है;
- (ज) “विदेशी मदिरा” का तात्पर्य भारत में आयातित स्पिरिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्पिरिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्पिरिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,
- (झ) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,
- (ञ) “आयातक इकाई” का तात्पर्य ब्रांड मालिक या प्रमुख आयातक या देश में मदिरा आयात करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इकाई से है।
- (ट) “व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने के समय पर 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो और भारत का नागरिक हो,
- (ठ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है,
- (ड) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा-24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से देय होगी जो कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (च) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,
- (छ) “परिवार” का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित है, से है;
- (ज) “विदेशी मदिरा” का तात्पर्य भारत में आयातित स्पिरिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्पिरिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्पिरिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,
- (झ) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,
- (ञ) “आयातक इकाई” का तात्पर्य ब्रांड मालिक या प्रमुख आयातक या देश में मदिरा आयात करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इकाई से है।
- (ट) “व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने के समय पर 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो और भारत का नागरिक हो,
- (ठ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है,
- (ड) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा-24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से देय होगी जो कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये,

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(ढ) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या किसी अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय।

(ण) “समुद्रपार आयातित मदिरा” का तात्पर्य बीयर, स्प्रिट, वाइन्स और मदिरा जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और ऐसे आयातक पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क देय हो।

(त) “पोर्टल” का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है,

(थ) “प्रतिभूति धनराशि” का तात्पर्य उस धनराशि से है जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद /बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी,

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

(द) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु किसी आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ढ) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या किसी अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय।

(ण) “समुद्रपार आयातित मदिरा” का तात्पर्य बीयर, स्प्रिट, वाइन्स और मदिरा जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और ऐसे आयातक पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क देय हो।

(त) “पोर्टल” का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है,

(थ) “प्रतिभूति धनराशि” का तात्पर्य उस धनराशि से है जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी,

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद/**ई-पेमेन्ट** या राष्ट्रीय बचत पत्र **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

(द) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु किसी आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

- (ध) “वाइन” का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतर्वस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक न हो,
- (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. नियम-4 का संशोधन –उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

- 4- विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक लाइसेंस के प्रकार:-
- (1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थात्:-
- (क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत प्रतिफल फीस पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-1 में प्रदान किया जायेगा।
- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बोटल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0-3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0-1क में लाइसेंस, पूर्व संदत प्रतिफल फीस पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ध) “वाइन” का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतर्वस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक न हो,
- (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक लाइसेंस के प्रकार:-
- 4 (1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थात्:-
- (क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत प्रतिफल फीस पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-1 में प्रदान किया जायेगा।
- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बोटल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0-3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0-1क में लाइसेंस, पूर्व संदत प्रतिफल फीस पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (ग) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, वाइन एवं समुद्रपार विदेशी मदिरा तथा वाइन की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0-2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।
- (घ) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय और समुद्रपार विदेशी मदिरा की सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0-2क में लाइसेंस दिया जायेगा।
- (ङ) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) के साथ-साथ आयातित बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-2ख में लाइसेंस दिया जायेगा।
- (च) प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंस, आयातक इकाई को अन्य देशों से समुद्रपार विदेशी मदिरा के थोक विक्रय के लिए गोदाम खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह समुद्रपार विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगाया जायेगी;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ग) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, वाइन, **कम तीव्रता के मादक पेय** एवं समुद्रपार विदेशी मदिरा तथा वाइन की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0-2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।
- (घ) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय और समुद्रपार विदेशी मदिरा की सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0-2क में लाइसेंस दिया जायेगा।
- (ङ) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर, **वाइन** एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) के साथ-साथ आयातित बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-2ख में लाइसेंस दिया जायेगा: **परन्तु यह कि वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति कोंच की बोतलों में सिविल/सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के लिए अनुज्ञेय होगी।**
- (च) प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंस, आयातक इकाई को अन्य देशों से समुद्रपार विदेशी मदिरा के थोक विक्रय के लिए गोदाम खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह समुद्रपार विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगाया जायेगी;

राज्य के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का कारबार करने वाली आयातक इकाईयों को राज्य के थोक अथवा विहित फुटकर लाइसेंसों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई. ओ.1 लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (2) आयात करने वाली पूर्वोक्त इकाईयाँ निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी: -
- (क) उनके पास उत्तर प्रदेश समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश के भीतर कस्टम बांड वेयरहाउस या कस्टम बांड वेयर हाउस आवंटन स्थान होना चाहिए;

- (2) आयात करने वाली पूर्वोक्त इकाईयाँ निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी: -
- (क) उनके पास उत्तर प्रदेश समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश के भीतर कस्टम बांड वेयरहाउस या कस्टम बांड वेयर हाउस आवंटन स्थान होना चाहिए;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(ख) उन्हें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित लाइसेंस फीस का भुगतान और प्रतिभूति जमा किये जाने पर राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) उन्हें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित लाइसेंस फीस का **संदाय** और प्रतिभूति जमा किये जाने पर राज्य के भीतर **आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत** किया जायेगा।

(एक) राज्य के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का कारबार करने वाली आयातक इकाइयों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति जमा किये जाने पर राज्य के समुद्रपारीय थोक अथवा विहित फुटकर लाइसेंसो को प्रदान किया जायेगा। आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी0आई0ओ0 लाइसेंस जारी किया जायेगा;

(दो) किसी जिला के बी0आई0ओ0 लाइसेंस के अधीन उसी जिला में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड संबद्ध किया जायेगा, किन्तु किसी एक कस्टम बाण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक स्थान आवंटित कराकर उन्हें अपने बी0आई0ओ0 लाइसेंसो से लिंकड कराया जा सकता है;

(तीन) बी0आई0ओ0 लाइसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संलग्न किये जाने वाले कस्टम बाण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्थान आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी0आई0ओ0 लाइसेंस के संचालन हेतु एक बन्धित मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा जिसका परिसर उसी जिला में और सम्बंधित कस्टम बाण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी0आई0ओ01 लाइसेंस का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत समस्त आयातक इकाईयों द्वारा राज्य में अवस्थित अपने बी0आई0ओ0 से राज्य के बाहर के किसी थोक विक्रेता/ फुटकर विक्रेता (कस्टम बाण्ड को छोड़कर) जिसके पास विधिमान्य आयात परमिट हो, सीमा शुल्क संदाय करेगा। संदत्त मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा और संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) केवल उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से की जायेगी। उक्त निकासी, निर्यात राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दर से परमिट फीस जमा कर की जायेगी।

(पाँच) उत्तर प्रदेश के थोक लाइसेंसो और विहित फुटकर लाइसेंसो को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी0आई0ओ0 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस वार अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण, विहित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं विहित शुल्क जमा कराते हुये कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र/ब्राण्ड के प्रमुख आयातक अनिवार्य नहीं होगा।

(छः) बी0आई0ओ01 लाइसेंस से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की मंजूरी होगी।

(ग) उन्हें ऐसे कस्टम बाण्ड वेयरहाउसों का विवरण घोषित करना होगा जिनमें मदिरा आयातित और भण्डारित की जायेगी;

(ग) उन्हें ऐसे कस्टम बाण्ड वेयरहाउसों का विवरण घोषित करना होगा जिनमें मदिरा आयातित और भण्डारित की जायेगी;

(घ) उन्हें कस्टम बाण्ड से बाहर सम्बन्धित जिलों में ऐसे वेयर हाउस की घोषणा करनी होगी और तद्विमित आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें कस्टम बाण्ड वेयर हाउसों से डी-बांडेड समुद्रपार विदेशी मदिरा उत्तर प्रदेश में विक्रय से पूर्व भण्डारित की जायेगी;

(घ) उन्हें कस्टम बाण्ड से बाहर सम्बन्धित जिलों में ऐसे वेयर हाउस की घोषणा करनी होगी और तद्विमित आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें कस्टम बाण्ड वेयर हाउसों से डी-बांडेड समुद्रपार विदेशी मदिरा उत्तर प्रदेश में विक्रय से पूर्व भण्डारित की जायेगी;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (ड) आयातक इकाई, देश में किसी भी कस्टम बाण्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा को प्राप्त कर सकती है;
- (च) वे राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को बिक्री कर सकती है या राज्य के भीतर किसी अन्य आयातक इकाई को स्टोक अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्य में स्थित अन्य कस्टम बॉन्डों को अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्यों में प्राधिकृत व्यक्तियों को निर्यात कर सकती है;
- (छ) समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्राधिकृत आयातक इकाई द्वारा कराया जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रीकरण होने पर समस्त आयातक इकाइयाँ बिक्री एवं खरीद कर सकती हैं और इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को पृथक रूप से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह कि आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों में संचित उन समस्त ब्राण्डों का भी निःशुल्क ऑन-लाइन रजिस्ट्रीकरण कराया जायेगा, जिनकी बिक्री प्रदेश के थोक/फुटकर लाइसेंसधारियों को नहीं की जानी है;

- (ज) वे राज्य में केवल रजिस्ट्रीकृत समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्रांडों की ही बिक्री करने के लिए प्राधिकृत होंगी;
- (झ) आयातक इकाई का बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा;
- (ञ) आयातक इकाईयाँ जो:-
- (एक) राज्य में सीधे अपने किसी कस्टम बाण्ड में मदिरा आयात करने अथवा;
- (दो) अन्य राज्यों में प्रान्तों में स्थित आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों से मदिरा का स्थानान्तरण प्राप्त करने अथवा;
- (तीन) अन्य राज्यों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा स्थानान्तरण करने अथवा

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ड) आयातक इकाई, देश में किसी भी कस्टम बाण्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा को प्राप्त कर सकती है;
- (च) वे राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को बिक्री कर सकती है या राज्य के भीतर किसी अन्य आयातक इकाई को स्टोक अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्य में स्थित अन्य कस्टम बॉन्डों को अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्यों में प्राधिकृत व्यक्तियों को निर्यात कर सकती है;
- (छ) समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्राधिकृत आयातक इकाई द्वारा कराया जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रीकरण होने पर समस्त आयातक इकाइयाँ बिक्री एवं खरीद कर सकती हैं और इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को पृथक रूप से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह कि आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों में संचित उन समस्त ब्राण्डों का भी निःशुल्क ऑन-लाइन रजिस्ट्रीकरण कराया जायेगा, जिनकी बिक्री प्रदेश के थोक/फुटकर लाइसेंसधारियों को नहीं की जानी है;

- (ज) वे राज्य में केवल रजिस्ट्रीकृत समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्रांडों की ही बिक्री करने के लिए प्राधिकृत होंगी;
- (झ) आयातक इकाई का बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा;
- (ञ) आयातक इकाईयाँ जो:-
- (एक) राज्य में सीधे अपने किसी कस्टम बाण्ड में मदिरा आयात करने अथवा;
- (दो) अन्य राज्यों में प्रान्तों में स्थित आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों से मदिरा का स्थानान्तरण प्राप्त करने अथवा;
- (तीन) अन्य राज्यों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा स्थानान्तरण करने अथवा

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(चार) राज्य में स्थित अन्य आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्ड में मदिरा के स्थानान्तरण करने का व्यवसाय कर रही हैं, वे उत्तर प्रदेश आबकारी पोर्टल पर विहित रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा कर रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) राज्य में स्थित अन्य आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्ड में मदिरा के स्थानान्तरण करने का व्यवसाय कर रही हैं,

(पाँच) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करने वाली इकाईयों को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर विहित रजिस्ट्रीकरण फीस संदाय कर उन्हें रजिस्ट्रीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा।

4-नियम-6 का संशोधन— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

6- लाइसेंस की स्वीकृति

(क) विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा होने पर आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा। प्रपत्र वि0म0-2, वि0म0-2ख में लाइसेंस प्रत्येक जिले में होगा:

परन्तु यह कि प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क तथा वि0म0-2क में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु ऋणशोधन क्षमता प्रमाण अपेक्षित नहीं होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6- लाइसेंस की स्वीकृति

(1)(क) विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जायेगा **मध्य सत्र में थोक लाइसेंस के अनुमोदन के मामलों में त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी। परन्तु यह की जिस त्रैमास में लाइसेंस अनुमोदित हुआ है उस त्रैमास में लाइसेंस फीस भी जमा की जायेगी।** लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा होने पर आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा। प्रपत्र वि0म0-2, वि0म0-2ख में लाइसेंस प्रत्येक जिले में होगा:

परन्तु यह कि प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क तथा वि0म0-2क में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु ऋणशोधन क्षमता प्रमाण अपेक्षित नहीं होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए हो, प्रतिग्राह्य होंगे।

(कक) प्रपत्र वि0म0-2, और वि0म0-2ख और बी0आई0 ओ0-1 लाइसेंस का नवीकरण आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन कर सकेंगे;

(ख) प्रपत्र वि0म0-2क में नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन लाइसेंस स्वीकृत/नामान्तरण कर सकते हैं;

(ग) प्रपत्र वि0म0-1 तथा वि0म0-1क में लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। इन लाइसेंसों को अगले तीन वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित देयताओं को जमा करने के पश्चात नवीकृत किया जायेगा। औचित्य एवं राजस्व हित के आधार पर उपरोक्त लाइसेंस आसवनी/यवासवनी परिसर के बाहर एक अथवा एक से अधिक संख्या में स्वीकृत किये जा सकेंगे:

परन्तु यह कि यदि उक्त लाइसेंस के संचालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं, तब नवीकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए हो, प्रतिग्राह्य होंगे।

(कक) प्रपत्र वि0म0-2, और वि0म0-2ख और बी0आई0 ओ0-1 लाइसेंस का नवीकरण आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन कर सकेंगे;

(ख) प्रपत्र वि0म0-2क में नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन लाइसेंस स्वीकृत/नामान्तरण कर सकते हैं;

(ग) प्रपत्र वि0म0-1 तथा वि0म0-1क में लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। इन लाइसेंसों को अगले तीन वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित देयताओं को जमा करने के पश्चात नवीकृत किया जायेगा। औचित्य एवं राजस्व हित के आधार पर उपरोक्त लाइसेंस आसवनी/यवासवनी परिसर के बाहर एक अथवा एक से अधिक संख्या में स्वीकृत किये जा सकेंगे:

परन्तु यह कि यदि उक्त लाइसेंस के संचालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं, तब नवीकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

5-नियम-7 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7. लाइसेंस हेतु पात्रता-

प्रपत्र एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2 ख में लाइसेंस किसे ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा, जो

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;

7. लाइसेंस हेतु पात्रता-

प्रपत्र एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2 ख में लाइसेंस किसे ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा, जो

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा:

परन्तु यदि यह कि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो)के अनुसार वारिसों/परिवार के सदस्यों/ निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रहेगा लाइसेंसधारक के रूप में बने रहने के लिए नामनिर्देशन शपथ पत्र में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार विचारित किये जायेंगे।

परन्तु अग्रतर यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथपत्र की अनुपलब्धता के मामलों में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।

यदि लाइसेंस संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों संयुक्त रूप से अलग-अलग दायी होंगे।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

- (ख) लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु से अधिक हो;
- (ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो;
- (घ) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;
- (ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्;
- (एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के उपबंधों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है;
- (दो) यह कि उपखण्ड (ङ) (एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है;
- (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से अन्यून हो, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ख) लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु से अधिक हो;
- (ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो;
- (घ) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;
- (ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्;
- (एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है;
- (दो) यह कि उपखण्ड (ङ)(एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है;
- (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से अन्यून हो, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से उसके अधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा;

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है;

(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;

(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ठेका निरस्त कर दिया जाये;

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय।

(दस) यह कि वह लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन के साथ पै नं० प्रस्तुत करेगा;

(ग्यारह) यह कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा अनुमोदित आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र धारक हो तथा उसकी शुद्ध हैसियत लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून दोगुनी धनराशि के समकक्ष होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय होने पर उसके प्राधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा;

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है;

(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;

(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ठेका निरस्त कर दिया जाये;

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय।

(दस) यह कि वह लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन के साथ पै नं० प्रस्तुत करेगा;

(ग्यारह) यह कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा अनुमोदित आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र धारक हो तथा उसकी शुद्ध हैसियत लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून दोगुनी धनराशि के समकक्ष होगी।

6-नियम-8 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

8-विदेशी मदिरा की आपूर्ति-

(क) लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) प्रदर्शित करने वाली लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/ केन्स/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. (कम तीव्रता की मादक पेय) की लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरों को जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।

(ख) एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी, और बी0आई0ओ0-1 से समुद्रपार विदेशी मदिरा आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरों जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, का अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।

(ग) लाइसेंसधारी प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में देश में किसी कस्टम बॉन्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा की खरीद कर सकता है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8-विदेशी मदिरा की आपूर्ति-

(क) लाइसेंसधारी अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शाने वाली लेबिल वाली विहित क्षमता की बोतलों/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा, केन/बोतलों में बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय बोतलों में एक कोड, उस पर चिपकाया जाता है और विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरों को जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक माध्यम से पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।

(ख) एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी, और बी0आई0ओ0-1 से समुद्रपार विदेशी मदिरा आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरों जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, का अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।

(ग) लाइसेंसधारी प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में देश में किसी कस्टम बॉन्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा की खरीद कर सकता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (घ) प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी यथा विहित फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के अभिहित द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी मदिरा का निर्यात कर सकता है। यह निर्यात प्राधिकृत अधिकारी से आन-लाइन निर्यात परमिट प्राप्त कर आबकारी पोर्टल से जनित परिवहन पास के माध्यम से किया जायेगा।
- (ङ) इस तरह के कस्टम बाण्डधारक, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित विवरण में मदिरा का राज्य में आयात और राज्य के बाहर निर्यात और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।
- (च) आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है।
- (छ) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयाँ राज्य के भीतर और राज्य के बाहर या राज्य के बाहर से राज्य के द्वारा समुद्रपार विदेशी मदिरा का कस्टम बाण्ड से कस्टम बाण्ड में किये गये अन्तरण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगी।
- (ज) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में कार्यरत आयातक इकाइयाँ, विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अन्य राज्यों की आयातक इकाइयों से भी प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से मदिरा प्राप्त कर सकेंगी। रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयों द्वारा अपने कस्टम बाण्ड में मदिरा प्राप्त व निकासी का विवरण री-वेयर हाउसिंग प्रमाण-पत्र सहित नियत समयावधि में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (घ) प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी यथा विहित फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के अभिहित द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी मदिरा का निर्यात कर सकता है। यह निर्यात प्राधिकृत अधिकारी से आन-लाइन निर्यात परमिट प्राप्त कर आबकारी पोर्टल से जनित परिवहन पास के माध्यम से किया जायेगा।
- (ङ) इस तरह के कस्टम बाण्डधारक, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित विवरण में मदिरा का राज्य में आयात और राज्य के बाहर निर्यात और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।
- (च) आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है।
- (छ) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयाँ राज्य के भीतर और राज्य के बाहर या राज्य के बाहर से राज्य के द्वारा समुद्रपार विदेशी मदिरा का कस्टम बाण्ड से कस्टम बाण्ड में किये गये अन्तरण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगी।
- (ज) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में कार्यरत आयातक इकाइयाँ, विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अन्य राज्यों की आयातक इकाइयों से भी प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से मदिरा प्राप्त कर सकेंगी। रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयों द्वारा अपने कस्टम बाण्ड में मदिरा प्राप्त व निकासी का विवरण री-वेयर हाउसिंग प्रमाण-पत्र सहित नियत समयावधि में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

9-प्रपत्र एफ.एल.-2 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

विदेशी मदिरा-2

विदेशी मदिरा व वाइन की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस

देखें नियम-6 (क)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

एफ0एल0-2 गोदाम का
फोटो

एफ0एल0-2 गोदाम का

अक्षांश/देशांतर

1-लाइसेंस संख्या

2-जनपद

3-लाइसेंसधारियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर
.....

(एक)

(दो)

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण(चौहद्दी सहित)

स्थान और मकान संख्या

पुलिस थाना तहसील

चौहद्दी-

उत्तर-

दक्षिण-

पूरब-

पश्चिम-

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

विदेशी मदिरा-2

विदेशी मदिरा व वाइन की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस

देखें नियम-6 (क)

आवेदक का फोट	सह आवेदक का फोटो
--------------	------------------

एफ0एल0-2 गोदाम का
फोटो

एफ0एल0-2 गोदाम का

अक्षांश/देशांतर

1-लाइसेंस संख्या

2-जनपद

3-लाइसेंसधारियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर
.....

(एक)

(दो)

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण(चौहद्दी सहित)

स्थान और मकान संख्या

पुलिस थाना तहसील

चौहद्दी-

उत्तर-

दक्षिण-

पूरब-

पश्चिम-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

विदेशी मदिरा व वाइन (भारत में भरी हुयी और मूल रूप में भरी हुयी) की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जिला के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस-थाना तहसील के लिये दिनांक से तक के लिये, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या 50प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2002 (यथासंशोधित) के नियम-15 में लाइसेंसों के निरस्तीकरण हेतु उपबंधित उपबन्धों की सीमा में आने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

निबंधन और शर्तें

1-लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/टेट्रापैक्स/कैन्स में विदेशी मदिरा एवं वाइन आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा एवं वाइन का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा एवं वाइन की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

विदेशी मदिरा, वाइन एवं **कम तीव्रता के मादक पेय** (भारत में भरी हुयी और मूल रूप में भरी हुयी) की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जिला के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस-थाना तहसील के लिये दिनांक से तक के लिये, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या 50प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2002 (यथासंशोधित) के नियम-15 में लाइसेंसों के निरस्तीकरण हेतु उपबंधित उपबन्धों की सीमा में आने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

निबंधन और शर्तें

1-लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की **बोतलों/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा और वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतलों में)** आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा एवं वाइन का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा एवं वाइन की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

- 2-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर शुल्कों आदि सम्मिलित हैं की कीमत को ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 से विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति करेगा।
- 3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दण्ड का आरोपण किया जायेगा।
- 4-राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री की जाएगी।
- 5-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो, और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 के माध्यम से निश्चित समयान्तराल पर अपलोड किया जायेगा।
- 6-लाइसेंसप्राप्त थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित मदिरा का परिवहन कम्प्यूटर जनित प्रपत्र एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड का अंकन किया जायेगा। पास की वैधता अवधि गन्तव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 2-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर शुल्कों आदि सम्मिलित हैं की कीमत को ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 से विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति करेगा।
- 3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों के लेबुलों पर **दायी और शीर्ष पर 1x1 सेंटीमीटर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फॉन्ट में** तीव्रता एवं अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दण्ड का आरोपण किया जायेगा।
- 4-राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री की जाएगी।
- 5-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो, और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 के माध्यम से निश्चित समयान्तराल पर अपलोड किया जायेगा।
- 6-लाइसेंसप्राप्त थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित मदिरा का परिवहन कम्प्यूटर जनित प्रपत्र एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड का अंकन किया जायेगा। पास की वैधता अवधि गन्तव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

7-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी तथा उसको आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एव वाइन की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

10-लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत विक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी तथा उसको आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एव वाइन की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

10-लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो **इक्कीस** वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से निर्गत फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा**, जिसे जब कभी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- 11-प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन जारी फुटकर लाइसेंसधारकों को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुज्ञा नहीं दी जाती है।
- 12-लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार / पैक्स के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट्स) में विदेशी शराब और वाइन की बिक्री सुनिश्चित करेगा। उक्त बोतलों के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- 13-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, कोड निर्मित करने वाला यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
- 14-परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन और उसके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।
- 15-लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 11-प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन जारी फुटकर लाइसेंसधारकों को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुज्ञा नहीं दी जाती है।
- 12-लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार / पैक्स के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट्स) में विदेशी शराब और वाइन की बिक्री सुनिश्चित करेगा। उक्त बोतलों के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- 13-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, कोड निर्मित करने वाला यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
- 14-परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन और उसके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।
- 15-लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

16-विदेशी मदिरा, वाइन के साथ साथ समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परन्तु यदि लाइसेंसधारी के पक्ष में एफ0एल-2बी लाइसेंस भी स्वीकृत है, तो ऐसे लाइसेंस का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।

17-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18-थोक विक्रेता बिक्री हेतु उचित मात्रा में समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।

19-लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

20-लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

21-बंधाधीन गोदामों बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 के साथ आसवनियों और द्राक्षासवनियों से विदेशी मदिरा एवं वाइन के परेशण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 प्रणाली युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

22-लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ बीयर/ माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।

23- लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

16-विदेशी मदिरा, वाइन के साथ साथ समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परन्तु यदि लाइसेंसधारी के पक्ष में एफ0एल-2बी लाइसेंस भी स्वीकृत है, तो ऐसे लाइसेंस का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।

17-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18-थोक विक्रेता बिक्री हेतु उचित मात्रा में समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।

19-लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

20-लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

21-बंधाधीन गोदामों बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 के साथ आसवनियों और द्राक्षासवनियों से विदेशी मदिरा एवं वाइन के परेशण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 प्रणाली युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

22-लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ बीयर/ माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।

23- लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

25-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा का सील्ड पेटियों में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके द्वारा तदुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

25-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा का सील्ड पेटियों में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तदुसार विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

8-प्रपत्र एफ.एल.-2ख का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-2ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

विदेशी मदिरा-2(ख)

बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस देखें नियम-6 (क)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

एफ0एल0-2 (ख)गोदाम का
फोटो

एफ0एल0-2(ख)गोदाम का अक्षांश/देशांतर

1-लाइसेंस संख्या

2-जिला

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

विदेशी मदिरा-2(ख)

बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस देखें नियम-6 (क)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

एफ0एल0-2 (ख)गोदाम का
फोटो

एफ0एल0-2(ख) गोदाम का अक्षांश/देशांतर

1-लाइसेंस संख्या

2-जिला

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-लाइसेंसधारियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार संख्या

3-लाइसेंसधारियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार संख्या

(एक)

(एक)

(दो)

(दो)

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में) (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में) (शब्दों में)

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण(चौहद्दी सहित)

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण(चौहद्दी सहित)

स्थान और मकान संख्या

स्थान और मकान संख्या

पुलिस थाना तहसील

पुलिस थाना तहसील

चौहद्दी-

चौहद्दी-

उत्तर-

उत्तर-

दक्षिण-

दक्षिण-

पूरब-

पूरब-

पश्चिम-

पश्चिम-

बीयर/ड्राट बीयर और कम तीव्रता की मादक पेय (भारत में भरी हुयी और मूल रूप में भरी हुयी) की बिक्री का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस थाना तहसील के लिये दिनांक से हेतु, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

बीयर/ड्राट बीयर (बोतलों, कैन आदि में) और वाइन (बोतलों में) कम तीव्रता के मादक पेय (बोतलों में) (भारत में भरी हुयी और मूल रूप में भरी हुयी) की बिक्री का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस थाना तहसील के लिये दिनांक से हेतु, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

निबंधन और शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी निर्धारित धारिता की बोतलों एवं केन्स में बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय प्रदेश स्थित आसवनियों एवं यवासवनियों से बोतलों व केन्स में आपूर्ति समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त करें, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- लाइसेंसधारी बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें समस्त उद्गृहण/कर इत्यादि सम्मिलित है, के कीमत का तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी , बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी एवं बी0आई0ओ0-1 से बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
- 3-बीयर की बोतलों एवं कम तीव्रता के मादक पेय और केन्स के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित थोक मूल्य से अधिक पर बिक्री नहीं करेगा, अन्यथा उस पर दण्ड आरोपित किया जायेगा।
- 4- किसी भी ब्राण्ड की बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतल/केन) की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी।
- 5-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा और जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) के माध्यम से आनलाइन अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

निबंधन और शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी निर्धारित धारिता की बोतलों एवं केन्स **आदि** में बीयर और **बोतलों में** कम तीव्रता के मादक पेय **व वाइन की आपूर्ति** प्रदेश स्थित आसवनियों एवं यवासवनियों/द्राक्षासवनी से समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त करें, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- लाइसेंसधारी बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें समस्त उद्गृहण/कर इत्यादि सम्मिलित है, के कीमत का तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी एवं बी0आई0ओ0-1 से बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
- 3- बीयर की बोतलों एवं कम तीव्रता के मादक पेय और केन्स के लेबुलों पर **दायी और शीर्ष पर 1x1 सेंटीमीटर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित थोक मूल्य से अधिक पर बिक्री नहीं करेगा, अन्यथा उस पर दण्ड आरोपित किया जायेगा।
- 4- बीयर, कम तीव्रता के मादक पेय तथा वाइन की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी।
- 5-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा और जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) के माध्यम से आनलाइन अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

6- लाइसेंस प्राप्त थोक परिसर से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय का परिवहन कम्प्यूटर जनित निर्धारित आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र पास द्वारा आच्छादित होगा। पास की प्रथम प्रति बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय के क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा, समय तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड अंकित किया जायेगा। पास की वैधता गंतव्य बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय के दोगुना से कम होगी। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर/थोक लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराई जाये और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वारा पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।

साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

"दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6- लाइसेंस प्राप्त थोक परिसर से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय का परिवहन कम्प्यूटर जनित निर्धारित आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र पास द्वारा आच्छादित होगा। पास की प्रथम प्रति बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय के क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा, समय तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड अंकित किया जायेगा। पास की वैधता गंतव्य बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय के दोगुना से कम होगी। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर/थोक लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराई जाये और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वारा पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।

साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

"दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत विक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11- प्रपत्र एफ0एल0-2ख में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस धारकों को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2021 के अधीन जारी, फुटकर लाइसेंसधाराको को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

12-बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस परिसर में कोई स्प्रिट, दुग्ध शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि, कोड निर्माण के यन्त्र, श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14-परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से निर्गत विक्रेता फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा जिसे जब कभी प्राधिकारियों द्वारा माँगा अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11- प्रपत्र एफ0एल0-2ख में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस धारकों को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2021 के अधीन जारी, फुटकर लाइसेंसधाराको को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

12-बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस परिसर में कोई स्प्रिट, दुग्ध शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि, कोड निर्माण के यन्त्र, श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14-परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- 15-लाइसेंस परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 16-बीयर एवं कम तीव्रता की मादक पेय की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 17-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।
- 18-थोक विक्रेता समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।
- 19- लाइसेंसधारी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।
- 20- लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 21-आसवनियों, यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाईयों के गोदामों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी एवं बी0आई0ओ0-1) के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 15-लाइसेंस परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 16-बीयर एवं कम तीव्रता की मादक पेय की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 17-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।
- 18-थोक विक्रेता समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।
- 19- लाइसेंसधारी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।
- 20- लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 21-आसवनियों, यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाईयों के गोदामों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी एवं बी0आई0ओ0-1) के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

- 22-लाइसेंसधारी बीयर/देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 23- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
- 24-लाइसेंसधारी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- 25- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची, आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके द्वारा तदुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान-प्रयागराज।

लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 22-लाइसेंसधारी बीयर/देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 23- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
- 24-लाइसेंसधारी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- 25- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची, आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तदुसार विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान-प्रयागराज।

लाइसेंस प्राधिकारी

11-प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

बी0आई0ओ0-1

समुद्रपार विदेशी मदिरा के बिक्री का लाइसेंस

नियम-4 (च) देखें

आवेदक का फोटो	बी0आई0ओ0 -1 कस्टम बाण्ड गोदाम का फोटो	बी0आई0ओ0-1 डी-बान्डेड गोदाम का फोटो
---------------	---	---

बी0आई0ओ0-1 कस्टम बाण्ड गोदाम का अक्षांश/देशांतर

बी0आई0ओ0-1 डी0-बान्डेड गोदाम का अक्षांश/देशांतर

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

बी0आई0ओ0-1

समुद्रपार विदेशी मदिरा के बिक्री का लाइसेंस

नियम-4 (च) देखें

आवेदक का फोटो	बी0आई0ओ0 -1 कस्टम बाण्ड गोदाम का फोटो	बी0आई0ओ0-1 डी-बान्डेड गोदाम का फोटो
---------------	---	---

बी0आई0ओ0-1 कस्टम बाण्ड गोदाम का अक्षांश/देशांतर

बी0आई0ओ0-1 डी0-बान्डेड गोदाम का अक्षांश/देशांतर

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

लाइसेंस संख्या

जिला आयातक इकाई के लाइसेंसधारक
का पूरा पता और आधार संख्या

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) शब्दों में
प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) शब्दों में

आयातक इकाई जिसके पास कस्टम बाण्ड या कस्टम बाण्ड में स्थान अवांटित है के परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)	आयातक इकाई के डी0बाण्ड गोदाम के परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)
स्थान और मकान संख्या ... थाना तहसील जिला उत्तर- दक्षिण- पूरब- पश्चिम-	स्थान और मकान संख्या ... थाना .. तहसील .. जिला उत्तर- दक्षिण- पूरब- पश्चिम-

समुद्रपार विदेशी मदिरा, की थोक बिक्री के लिये
लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जिला
के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस थाना ... तहसील
के लिये दिनांक से तक के लिये,
जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति
निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के
अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी एक का
व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,
1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध
होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित
किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति
निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

लाइसेंस संख्या

जिला आयातक इकाई के लाइसेंसधारक
का पूरा पता और आधार संख्या

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) शब्दों में
प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) शब्दों में

आयातक इकाई जिसके पास कस्टम बाण्ड या कस्टम बाण्ड में स्थान अवांटित है के परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)	आयातक इकाई के डी0बाण्ड गोदाम के परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)
स्थान और मकान संख्या ... थाना ... तहसील जिला उत्तर- दक्षिण- पूरब- पश्चिम-	स्थान और मकान संख्या ... थाना .. तहसील जिला उत्तर- दक्षिण- पूरब- पश्चिम-

समुद्रपार विदेशी मदिरा, की थोक बिक्री के लिये
लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जिला
के अन्तर्गत, (स्थान) पुलिस थाना ... तहसील
के लिये दिनांक से तक के लिये,
जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति
निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के
अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी एक का
व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,
1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने
पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं
शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का
समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

निबन्धन और शर्तें

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व भण्डारण "समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003" के नियम 3,4 व 5 के अनुसार करेगा।
2. डी-बान्डेड गोदामों से बिक्री राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में की जाएगी।
3. समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या इसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्रमुख आयातक इकाई द्वारा कराया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में, जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और निरीक्षण हेतु जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि को भी प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर भी आन लाईन अपलोड कराया जायेगा।
5. डी-बान्डेड गोदाम परिसर से समुद्रपार विदेशी मदिरा का परिवहन एफ.एल.-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। कम्प्यूटर जनित पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित, लाइसेंसधारी द्वारा या विक्रेता द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। कम्प्यूटर जनित पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और ऑनलाइन सत्यापन को मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

निबन्धन और शर्तें

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व भण्डारण "समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003" के नियम 3,4 व 5 के अनुसार करेगा।
2. डी-बान्डेड गोदामों से बिक्री राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में की जाएगी।
3. समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या इसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्रमुख आयातक इकाई द्वारा कराया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में, जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और निरीक्षण हेतु जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि को भी प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर भी आन लाईन अपलोड कराया जायेगा।
5. डी-बान्डेड गोदाम परिसर से समुद्रपार विदेशी मदिरा का परिवहन एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। कम्प्यूटर जनित पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित, लाइसेंसधारी द्वारा या विक्रेता द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। कम्प्यूटर जनित पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और ऑनलाइन सत्यापन को मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक थोक बिक्री का लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का विवरण विहित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। प्रदेश के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की स्थिति में निकासी सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को दी जायेगी और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।
- 7- लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।
8. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, “समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी, “दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड पर निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना प्रतिषिद्ध है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

9. लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामित और या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित विक्रेता का सम्यक रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा जिसे जब कभी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये प्रस्तुत करना होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक थोक बिक्री का लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का विवरण विहित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। प्रदेश के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की स्थिति में निकासी सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को दी जायेगी और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।
 - 7-लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।
 8. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, “समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी, “दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड पर निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-
- “दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना प्रतिषिद्ध है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”
9. लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो **इक्कीस** वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी **संक्रामित** और या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप निर्गत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा** प्राप्त करेगा जिसे जब कभी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये प्रस्तुत करना होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

10. लाइसेंसधारी, प्रपत्र वि0म0-2 तथा वि0म0-2बी में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन फुटकर लाइसेंसधारकों को समुद्रपार विदेशी मदिरा का परमिट फीस के भुगतान पर, बिल आफ इन्ट्री पर अन्य कस्टम बाण्ड को तथा निर्यात परमिट फीस के भुगतान पर निर्यात अन्य प्रदेशों को सुरक्षा प्रणाली के अधीन कोड लगी बोतलों/कैन में समुद्रपार विदेशी मदिरा की बिक्री करेगा।
11. लाइसेंसधारी, किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों का विरूपण नहीं करेगा।
12. लाइसेंसधारी, अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में स्पिट, रंग, सुगंधि, कोड निर्माण यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
13. बाण्ड स्थित परिसर का उपयोग लाइसेंसधारी/विक्रेता व उनके परिवार के सिवाय आवासीय हेतु नहीं किया जायेगा।
14. डी-बान्डेड लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि कलेक्टर द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए समस्त दिवस में प्रातः 9.00 बजे प्रातः से लेकर रात्रि 8.00 बजे तक खुला रहेगा। कलेक्टर या लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिनांकों और दिवसों पर दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10. लाइसेंसधारी, प्रपत्र वि0म0-2 तथा वि0म0-2बी में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन फुटकर लाइसेंसधारकों को समुद्रपार विदेशी मदिरा का परमिट फीस के भुगतान पर, बिल आफ इन्ट्री पर अन्य कस्टम बाण्ड को तथा निर्यात परमिट फीस के भुगतान पर निर्यात अन्य प्रदेशों को सुरक्षा प्रणाली के अधीन कोड लगी बोतलों/कैन में समुद्रपार विदेशी मदिरा की बिक्री करेगा।
11. लाइसेंसधारी, किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों का विरूपण नहीं करेगा।
12. लाइसेंसधारी, अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में स्पिट, रंग, सुगंधि, कोड निर्माण यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
13. बाण्ड स्थित परिसर का उपयोग लाइसेंसधारी/विक्रेता व उनके परिवार के सिवाय आवासीय हेतु नहीं किया जायेगा।
14. डी-बान्डेड लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि कलेक्टर द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए समस्त दिवस में प्रातः 9.00 बजे प्रातः से लेकर रात्रि 8.00 बजे तक खुला रहेगा। कलेक्टर या लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिनांकों और दिवसों पर दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

15. समुद्रपार विदेशी मदिरा, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, लाइसेंसधारी, परिसर में कोई अन्य कारबार नहीं करेगा।
16. लाइसेंसधारी को समय-समय पर निर्गत आबकारी आयुक्त के आदेश का अनुपालन करना होगा।
17. लाइसेंसधारी बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में समुद्रपार विदेशी मदिरा के लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।
18. लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।
19. लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली और अग्निशमन यंत्र की आवश्यक व्यवस्था करना होगा।
20. समुद्रपार विदेशी मदिरा के परेषण का परिवहन, केवल जी0पी0एस0 युक्त यानों के माध्यम से ही होगा।
21. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/बीयर या माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
22. लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिये कम्प्यूटर आपरेटर नियोजित करेगा।
23. लाइसेंसधारी अपने गोदाम में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संग्रह करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।
24. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा के बोतल को का सील्ड पेटियों /मोनोकार्टन में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
25. लाइसेंसधारी, राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को परमिट फीस के भुगतान पर प्रपत्र एफएल -36 में गेट पास के माध्यम से आयातित मदिरा की बिक्री करेगा।
26. प्रपत्र बी0आई0ओ0 -1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित ऐसी फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी मदिरा का निर्यात कर सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

15. समुद्रपार विदेशी मदिरा, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, लाइसेंसधारी, परिसर में कोई अन्य कारबार नहीं करेगा।
16. लाइसेंसधारी को समय-समय पर निर्गत आबकारी आयुक्त के आदेश का अनुपालन करना होगा।
17. लाइसेंसधारी बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में समुद्रपार विदेशी मदिरा के लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।
18. लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।
19. लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली और अग्निशमन यंत्र की आवश्यक व्यवस्था करना होगा।
20. समुद्रपार विदेशी मदिरा के परेषण का परिवहन, केवल जी0पी0एस0 युक्त यानों के माध्यम से ही होगा।
21. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/बीयर या माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
22. लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिये कम्प्यूटर आपरेटर नियोजित करेगा।
23. लाइसेंसधारी अपने गोदाम में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संग्रह करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।
24. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा के बोतल को का सील्ड पेटियों /मोनोकार्टन में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
25. लाइसेंसधारी, राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को परमिट फीस के भुगतान पर प्रपत्र एफएल -36 में गेट पास के माध्यम से आयातित मदिरा की बिक्री करेगा।
26. प्रपत्र बी0आई0ओ0 -1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित ऐसी फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी मदिरा का निर्यात कर सकता है।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

27. इस तरह के बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस धारक आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य में आयात की जाने वाली और राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा का विवरण और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।
28. प्रपत्र-बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारक उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा।
- 29-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके द्वारा तद्विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान-

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

27. इस तरह के बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस धारक आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य में आयात की जाने वाली और राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा का विवरण और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।
28. प्रपत्र-बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारक उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा।
- 29-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तद्विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

दिनांक:

स्थान-

डा0 आदर्श सिंह,
(आबकारी आयुक्त),
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 145/X-Licence-60/FL-2/Wholesale Rules/2023-24

Prayagraj, dated: April 04, 2024

In exercise of the powers under sections 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of License for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 :

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF FOREIGN LIQUOR) (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Wholesale of Foreign Liquor) (Fourteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.

2. Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Wholesale of Foreign Liquor) Rules, 2002, hereinafter referred to as the “said rules”, for existing rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

Column I*Existing rule*

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
- (b) "Additional Consideration Fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor/beer to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery/ Brewery level and recoverable by Distillery/Brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/Ex-Brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
- (c) Additional License Fee- means the leviable sum in the form of consideration for the exclusive privilege of wholesale supply of foreign liquor/ beer/wine/LAB to be made by the licensee of FL-2/FL-2B in the other district for whom FL-2/FL-2B License could not be sanctioned or where supply is interrupted in addition to the district for which License has been granted and which shall have to be deposited in accordance with the procedure laid down by Excise Commissioner with the approval of State Government;
- (d) "Beer" includes ale stout, porter, cider and all other fermented liquors made from Malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;
- (e) "Consideration Fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply;
- (f) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April and ending with 31st March of the next calendar year;
- (g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
- (h) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported in India or spirit or liquor made in India and to sophisticated or colored so as to resemble in flavor or color liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liquors;

Column II*Rule as hereby substituted*

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
- (b) "Additional Consideration Fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor/beer to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery/ Brewery level and recoverable by Distillery/Brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/Ex-Brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
- (c) Additional License Fee- means the leviable sum in the form of consideration for the exclusive privilege of wholesale supply of foreign liquor/ beer/wine/LAB to be made by the licensee of FL-2/FL-2B in the other district for whom FL-2/FL-2B License could not be sanctioned or where supply is interrupted in addition to the district for which License has been granted and which shall have to be deposited in accordance with the procedure laid down by Excise Commissioner with the approval of State Government;
- (d) "Beer" includes ale stout, porter, cider and all other fermented liquors made from Malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;
- (e) "Consideration Fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply;
- (f) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April and ending with 31st March of the next calendar year;
- (g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
- (h) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported in India or spirit or liquor made in India and to sophisticated or colored so as to resemble in flavor or color liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liquors;

Column I*Existing rule*

- (i) "Form" means a form appended to these Rules;
- (j) "Importing unit" means either a brand owner or principal importer or any person or entity authorized to import liquor into the country;
- (k) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of 21 years at the time of making application for the grant of License;
- (l) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner, Uttar Pradesh;
- (m) "License Fee" means the consideration for grant of License for exclusive privilege of wholesale of foreign liquor under section-24A of the Act, payable by the Licensee, preferably through e-payment, before the License is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government;
- (n) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;
- (o) "Overseas foreign liquor" means beer, spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962;
- (p) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;
- (q) "Security Amount" means that amount which is to be deposited through Fixed Deposit Receipt /Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. The security amount shall be 10% of the License fee:

Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded;

Column II*Rule as hereby substituted*

- (i) "Form" means a form appended to these Rules;
- (j) "Importing unit" means either a brand owner or principal importer or any person or entity authorized to import liquor into the country;
- (k) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of 21 years at the time of making application for the grant of License;
- (l) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner, Uttar Pradesh;
- (m) "License Fee" means the consideration for grant of License for exclusive privilege of wholesale of foreign liquor under section-24A of the Act, payable by the Licensee, preferably through e-payment, before the License is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government;
- (n) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;
- (o) "Overseas foreign liquor" means beer, spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962;
- (p) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;
- (q) "Security Amount" means that amount which is to be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. The security amount shall be 10% of the License fee:

Provided that in case of renewal security deposited prior in cash/**e-payment** or through National saving Certificate **or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded;

Column I*Existing rule*

- (r) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale License;
- (s) "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of any other fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (r) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale License;
- (s) "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of any other fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Amendment of rule-4—In the said rules, for existing rule 4 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

Column I*Existing rule*

- 4- Types of wholesale Licences for foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages
- (1) There shall be Six types of licences for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages i.e.
- (a) Licence in Form FL-1 for wholesale of the foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be granted to distilleries/breweries/ vinteneries situated in the State of Uttar Pradesh on prepaid consideration fee;
- (b) Licence in form FL-1-A for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages, manufactured by distilleries breweries and vinteneries situated outside the State of U.P. and by whom Licence in Form FL-3-A has been taken for bottling of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages and shall be granted on prepaid consideration fee;
- (c) Licence in Form FL-2 shall be granted for wholesale of foreign liquor, wine and overseas foreign liquor and wine for sale to the retail licensed vendors;
- (d) Licence in Form FL-2-A shall be granted for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages and overseas foreign liquor to licensed wholesale and retail vendor of military/Para military forces;
- (e) Licence in Form FL-2-B shall be granted for wholesale of beer and low alcoholic beverages as well as imported beer/low alcoholic beverages for sale to retail licensed vendors;

Column II*Rule as hereby substituted*

- 4- Types of wholesale Licences for foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages
- (1) There shall be Six types of licences for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages i.e.
- (a) Licence in Form FL-1 for wholesale of the foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be granted to distilleries/breweries/ vinteneries situated in the State of Uttar Pradesh on prepaid consideration fee;
- (b) Licence in form FL-1-A for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages, manufactured by distilleries breweries and vinteneries situated outside the State of U.P. and by whom Licence in Form FL-3-A has been taken for bottling of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages and shall be granted on prepaid consideration fee;
- (c) Licence in Form FL-2 shall be granted for wholesale of foreign liquor, wine, **low alcoholic beverages** and overseas foreign liquor and wine for sale to the retail licensed vendors;
- (d) Licence in Form FL-2-A shall be granted for wholesale of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages and overseas foreign liquor to licensed wholesale and retail vendor of military/Para military forces;
- (e) Licence in Form FL-2-B shall be granted for wholesale of beer, **wine** and low alcoholic beverages as well as imported beer /low alcoholic beverages for sale to retail licensed vendors;

Provided that supply of wine and low alcoholic beverages in glass bottles will be permissible to civil/military/paramilitary forces.

Column I*Existing rule*

(f) Licence in Form BIO-1 shall be granted to importing units for opening vend for wholesale of overseas foreign liquor. This Overseas foreign liquor from other Countries shall be brought under the import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules -2003;

(2) The Aforesaid importing units shall fulfill the following eligibility criteria :-

(a) It shall have a custom bond warehouse or allocation of space in custom bond ware-house within Uttar Pradesh, established under the provisions of Import of Overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules, 2003;

(b) It shall be registered in the state on payment of license fees and deposit of security as prescribed by the Excise commissioner with the previous approval of the State Government;

Column II*Rule as hereby substituted*

(f) Licence in Form BIO-1 shall be granted to importing units for opening vend for wholesale of overseas foreign liquor. This Overseas foreign liquor from other Countries shall be brought under the import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules-2003;

It will be mandatory for the importing units doing business of overseas imported liquor through any custom bond of the state to obtain BIO-1 license for selling the overseas imported liquor through wholesale or prescribed retail licenses of the state.

(2) The Aforesaid importing units shall fulfill the following eligibility criteria :-

a. It shall have a custom bond warehouse or allocation of space in custom bond ware-house within Uttar Pradesh, established under the provisions of Import of Overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules, 2003;

b. It shall be registered **on the portal of the Excise Department within** in the state on payment of license fees and deposit of security as prescribed by the Excise commissioner with the previous approval of the State Government;

(i) **The importing units doing business of overseas imported liquor through any customs bond in the State, with the prior approval of the State Government, shall be granted overseas wholesale or prescribed retail licenses of the State on depositing the license fee and security as prescribed by the Excise Commissioner. BIO license will be issued for selling imported liquor;**

(ii) **Under the BIO license of any district, only one custom bond located in the same district will be associated, but in any one custom bond, more than one importing units can be linked to their BIO licenses by allotting separate spaces;**

(iii) **In addition to the information required in the application form submitted for BIO license, it will be mandatory to upload the required details of the custom bond to be attached and the certificate of allotment of space in it on the portal. For the operation of every BIO license, it will be mandatory to have a bonded liquor warehouse whose premises will be in the same district and outside the premises of the concerned customs bond. BIO 1 license will be operated as per the Uttar Pradesh Excise (Arrangement of Licenses for Wholesale Sale of Foreign Liquor) Rules, 2002 (as amended) and the instructions given from time to time;**

Column I
Existing rule

Column II
Rule as hereby substituted

- | | |
|---|--|
| <p>(c) It shall declare the details of custom bonded ware houses in which liquor shall be imported and stored;</p> <p>(d) It shall declare and obtain approval of Excise Commissioner for the warehouse outside custom bond of concerned district in which overseas foreign liquor de-bonded from custom bonded ware houses shall be stored before sale in U.P;</p> <p>(e) The importing unit may procure overseas foreign liquor from any custom bond in the country;</p> <p>(f) It may either sell to authorized persons within the state or to transfer stock to another importing unit within the state or transfer to other custom bonds located in other state or export to authorized persons in other states;</p> <p>(g) The brands of overseas foreign liquor shall be registered either by brand owner or its authorized principal importer or any other authorized importing unit. Upon such registration all the importing units can sell and procure and no separate registration by each such unit is required;</p> | <p>(iv) All the importing units registered on the portal of Uttar Pradesh Excise Department will pay the custom duty from their BIO located in the state to any wholesaler/retailer outside the state (except Custom Bond) who has a valid import permit. For export of paid liquor, online export permit will be compulsorily obtained from the concerned District Excise Officer and clearance (export) of the concerned liquor will be done only through the transport pass issued through the portal of Uttar Pradesh Excise Department. The said clearance will be done by depositing the permit fee at the rate prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the export state government.</p> <p>(v) It will be mandatory for each BIO licensee to get the license wise approval/registration of all the brands and labels of imported liquor sold overseas in the wholesale licenses and prescribed retail licenses of Uttar Pradesh by following the prescribed online process and depositing the prescribed fees. For this, authorization letter from the brand owner or the concerned brand owner in India/major importer of the brand will not be mandatory.</p> <p>(vi) BIO-1 license will allow transportation of liquor in the same vehicle to multiple destinations.</p> <p>c. It shall declare the details of custom bonded ware houses in which liquor shall be imported and stored;</p> <p>d. It shall declare and obtain approval of Excise Commissioner for the warehouse outside custom bond of concerned district in which overseas foreign liquor de-bonded from custom bonded ware houses shall be stored before sale in U.P;</p> <p>e. The importing unit may procure overseas foreign liquor from any custom bond in the country;</p> <p>f. It may either sell to authorized persons within the state or to transfer stock to another importing unit within the state or transfer to other custom bonds located in other state or export to authorized persons in other states;</p> <p>g. The brands of overseas foreign liquor shall be registered either by brand owner or its authorized principal importer or any other authorized importing unit. Upon such registration all the importing units can sell and procure and no separate registration by each such unit is required;</p> |
|---|--|

Column I*Existing rule*

Provided that free online registration of all those brands stored in custom bonds of the importing units will also be done, which will not sold to wholesale/retail licensees of the State;

- (h) It shall be authorized to sell only those brands of overseas foreign liquor registered in the State;
- (i) BIO-1 license of the importing unit will be affiliated to only one custom bond located in the same district;
- (j) Importing units which:-
- (i) is importing liquor directly into any of its custom bonds in the State or;
- (ii) is receiving transfer of liquor from custom bonds of importing units located in other States or;
- (iii) is transferring liquor to the customs bond of an importing unit located in other States or;
- (iv) doing the transfer business of liquor in custom bonds of other importing units located in the State, will be registered on the Uttar Pradesh Excise portal by depositing the prescribed registration fee.

Column II*Rule as hereby substituted*

Provided that free online registration of all those brands stored in custom bonds of the importing units will also be done, which will not sold to wholesale/retail licensees of the State;

- h. It shall be authorized to sell only those brands of overseas foreign liquor registered in the State;
- i. BIO-1 license of the importing unit will be affiliated to only one custom bond located in the same district;
- j. Importing units which:-
- (i) is importing liquor directly into any of its custom bonds in the State or;
- (ii) is receiving transfer of liquor from custom bonds of importing units located in other States or;
- (iii) is transferring liquor to the customs bond of an importing unit located in other States or;
- (iv) doing the transfer business of liquor in custom bonds of other importing units located in the State, will be registered on the Uttar Pradesh Excise portal by depositing the prescribed registration fee.

(5) It will be mandatory for the units dealing in any kind of overseas imported liquor in the state to get themselves registered on the prescribed portal of the Excise Department of Uttar Pradesh by paying the prescribed registration fee.

6. Amendment of rule-6—In the said rules, for existing rule 6 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

Column I*Existing rule*

6. Grant of license

- (1)(a) The licence for wholesale of Foreign Liquor shall be granted by the Excise Commissioner or an officer authorized by him on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of licence fee and payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of Excise Commissioner, Uttar Pradesh or through e-payment in accordance with the provisions of these rules on application of applicant submitted online. The license in Form FL-2, FL-2B shall be in every district:

Column II*Rule as hereby substituted*

6. Grant of license

- (1)(a) The licence for wholesale of Foreign Liquor shall be granted by the Excise Commissioner or an officer authorized by him on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of licence fee. **In cases of approval of licence for wholesale of Foreign Liquor in mid-season, license fees will be charged on quarterly basis:**

Provided that the license fee will also be deposited for the quarter in which the license is approved and payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise Commissioner, Uttar Pradesh or through e-payment in accordance with the provisions of these rules on application of applicant submitted online. The license in Form FL-2, FL-2B shall be in every district:

Column I*Existing rule*

Provided that for the grant of license in Form FL-1, FL-1A and FL-2A, proof of solvency is not required.

In case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

- (aa) License in Form FL-2, FL-2B and BIO-1 may be renewed by Excise Commissioner or an officer authorized by him, subject to the terms and conditions prescribed by the State Government;
- (b) In case of grant new License or when ever any existing license in the form FL-2A is vacated (including the mutation of names) and its continuance and settlement with some other party is considered necessary; the Excise Commissioner shall grant /transfer the licence subject to the prescribed terms and conditions;
- (c) License in Form FL-1 and FL-1A shall be granted by the Excise Commissioner. These licenses may be renewed for next three financial years after depositing the prescribed dues. If justified and found in revenue interest, one or more FL-1/FL-1A licenses can be sanctioned outside the distilleries/ breweries premises:

Provided that if any repugnant fact comes into notice in operation of those licenses, then the decision of the Excise Commissioner about the renewal of these licenses shall be final and obligatory.

- (2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

5. Amendment of rule-7—In the said rules, for existing rule 7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

Column I*Existing rule*

- (1) License in form FL-2 and FL-2B shall be granted to any person who-
- (a) be a citizen of India,

or

Column II*Rule as hereby substituted*

Provided that for the grant of license in Form FL-1, FL-1A and FL-2A, proof of solvency is not required.

In case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate / **Bank guarantee** shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

- (aa) License in Form FL-2, FL-2B and BIO-1 may be renewed by Excise Commissioner or an officer authorized by him, subject to the terms and conditions prescribed by the State Government;
- (b) In case of grant new License or when ever any existing license in the form FL-2A is vacated (including the mutation of names) and its continuance and settlement with some other party is considered necessary; the Excise Commissioner shall grant /transfer the licence subject to the prescribed terms and conditions;
- (c) License in Form FL-1 and FL-1A shall be granted by the Excise Commissioner. These licenses may be renewed for next three financial years after depositing the prescribed dues. If justified and found in revenue interest, one or more FL-1/FL-1A licenses can be sanctioned outside the distilleries/ breweries premises:

Provided that if any repugnant fact comes into notice in operation of those licenses, then the decision of the Excise Commissioner about the renewal of these licenses shall be final and obligatory.

- (2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (1) License in form FL-2 and FL-2B shall be granted to any person who-
- (a) be a citizen of India,

or

Column I*Existing rule*

is a partnership firm having not more than two partners, both being citizens of India. No change in partnership shall be allowed after allotment of shop(s). In the event of death, if a License is held by an individual, his legal heir(s) if eligible may continue to hold the License for the remaining period of the License. If a License is jointly held by two partners, in the event of death of any of them, survivor along with the legal heir(s) of deceased, if eligible, may continue to hold the License or in case of death of both partners their legal heir(s), if eligible, may continue to hold the License. No distinction will be made between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible;

- (b) is above twenty-one years of age at the time of making application for the grant of License;
- (c) is not a defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise License under the provisions of any rules made under the Act;
- (d) does not possess any License for retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop;
- (e) submits an affidavit duly verified by notary public as proof of the following, namely:-
- (I) that he possesses or can arrange on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop. Rules, 1968 as amended from time to time;
- (II) that premises of the shop as shown in sub clause (e) (1) has not been constructed in violation of any law or rules.
- (III) that he and his family members possess good moral character and they have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;

Column II*Rule as hereby substituted*

is a partnership firm having not more than two partners, both being citizens of India. No change in partnership shall be allowed after allotment of shop(s).

Provided that if the license has been obtained by a person, then in the event of his death, as per the nomination affidavit (if any) given by the licensee, for the remaining period of the license, the license shall be in the names of the heirs/family members/close relatives of the deceased licensee, if not otherwise ineligible. Nominations for continuing as license holders will be considered as per the order of preference mentioned in the affidavit.

Provided further that in case of non-availability of nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir may continue to be the licensee for the remaining period of the license.

If the license is jointly obtained by two persons, then in the event of death of one of the persons, the surviving person and the nominee or legal heir of the deceased licensee selected as above, if otherwise eligible, continue to be the licensee for the remaining period of the license. Could. There will be no distinction between the legal responsibilities of both the persons and both will be jointly and severally liable.

- (b) is above twenty-one years of age at the time of making application for the grant of License;
- (c) is not a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise License under the provisions of any rules made under the Act;
- (d) does not possess any License for retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop;
- (e) submits an affidavit duly verified by notary public as proof of the following, namely:-
- (I) that he possesses or can arrange on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop. Rules, 1968 as amended from time to time;
- (II) that premises of the shop as shown in sub clause (e)(1) has not been constructed in violation of any law or rules.
- (III) that he and his family members possess good moral character and they have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;

Column I*Existing rule*

- (IV) that in case he is selected as licensee he shall furnish a certificate, prior to issuance of the License, issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the District of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and they have no criminal background or criminal history;
- (V) that he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in sub clause(iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer;
- (VI) that he is not in arrear of any public dues or Government dues,
- (VII) that he is solvent and has the necessary funds or has arranged the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority is required;
- (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti-social activities and organized offensive activities, if after issuance of License it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted agreement/ lease/ contract shall be cancelled;
- (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the License then the License shall be cancelled;
- (x) that he shall furnish the PAN no. along with his application for obtaining the License;
- (xi) that he shall be bearer of solvency certificate issued by a competent authority or of a certificate of owned property issued by the approved Income Tax Valuer and his net worth shall be equivalent to not less than double the amount of the license fee.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (IV) that in case he is selected as licensee he shall furnish a certificate, prior to issuance of the License, issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the District of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and they have no criminal background or criminal history;
- (v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.**
- (VI) that he is not in arrear of any public dues or Government dues,
- (VII) that he is solvent and has the necessary funds or has arranged the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority is required;
- (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti-social activities and organized offensive activities, if after issuance of License it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted agreement/ lease/ contract shall be cancelled;
- (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the License then the License shall be cancelled;
- (x) that he shall furnish the PAN no. along with his application for obtaining the License;
- (xi) that he shall be bearer of solvency certificate issued by a competent authority or of a certificate of owned property issued by the approved Income Tax Valuer and his net worth shall be equivalent to not less than double the amount of the license fee.

8. Amendment of rule-8—In the said rules, for existing rule 8 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
<p>8. Supply of foreign liquor.</p> <p>(a) The licensee shall procure supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages in bottles /cans/tetrapacks of the prescribed capacity having label showing M.R.P. (Maximum Retail Price) a code under security system, affixed on it and approved by the Excise Department from distilleries, breweries and vinteneries that are Licensed manufactures of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages or other wholesale shop after making full payment of consideration fee (including additional consideration fee) in advance through the electronic means and such other levies, taxes or cess as livable from time to time;</p> <p>(b) Licensee of FL-2 and FL-2B shall procure supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverage from BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C, BWFL-2D and overseas foreign liquor from BIO-1 in bottles/cans/ tetrapacks having labels indicating M.R.P. (Maximum Retail Price), a code under security system as approved by Excise Department and on full payment of consideration fee (including additional consideration fee) in advance through the electronic means and such other levies taxes or cess as livable from time to time;</p> <p>(c) The licensee in form BIO-1 shall procure overseas foreign liquor from any custom bond in the country;</p> <p>(d) The licensee in form BIO-1 may export overseas foreign liquor to any person authorized by the designated authority of importing state, on payment of such fees as prescribed the Excise Commissioner, with previous approval of the state government. This export will be done through the transport pass generated from the excise portal after obtaining online export permit from the authorized officer;</p> <p>(e) Such custom bond holder shall be under obligation to furnish the details of liquor being imported into and exported out of the state and such other details as prescribed by the Excise Commissioner;</p> <p>(f) In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules, 2003;</p>	<p>8. Supply of foreign liquor.</p> <p>(a) The licensee shall procure supplies of Foreign Liquor in Bottles/Tetrapaks, Beer in Cans/ Bottles, Wine and Low Strength Alcoholic Beverages in Bottles of the prescribed capacity having label showing M.R.P. (Maximum Retail Price) a code under security system, affixed on it and approved by the Excise Department from distilleries, breweries and vinteneries that are Licensed manufactures of foreign liquor, beer, wine and Low Alcoholic Beverages or other wholesale shop after making full payment of consideration fee (including additional consideration fee) in advance through the electronic means and such other levies, taxes or cess as livable from time to time;</p> <p>(b) Licensee of FL-2 and FL-2B shall procure supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverage from BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C, BWFL-2D and overseas foreign liquor from BIO-1 in bottles/cans/ tetrapacks having labels indicating M.R.P. (Maximum Retail Price), a code under security system as approved by Excise Department and on full payment of consideration fee (including additional consideration fee) in advance through the electronic means and such other levies taxes or cess as livable from time to time;</p> <p>(c) The licensee in form BIO-1 shall procure overseas foreign liquor from any custom bond in the country;</p> <p>(d) The licensee in form BIO-1 may export overseas foreign liquor to any person authorized by the designated authority of importing state, on payment of such fees as prescribed the Excise Commissioner, with previous approval of the state government. This export will be done through the transport pass generated from the excise portal after obtaining online export permit from the authorized officer;</p> <p>(e) Such custom bond holder shall be under obligation to furnish the details of liquor being imported into and exported out of the state and such other details as prescribed by the Excise Commissioner;</p> <p>(f) In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules, 2003;</p>

Column I*Existing rule*

- (g) The importing units registered on the excise portal shall upload the details of custom bond to custom bond transfer of overseas liquor within the State and outside the State or outside State to within the State;
- (h) The importing units registered on the excise portal and doing business in the State will also be able to obtain liquor from the registered importing units of other States with the approval of the authorized officer. The details of receipt and dispatch of liquor in their custom bond along with re-ware housing certificate of the registered importing units will be uploaded on the portal within the stipulated time period.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (g) The importing units registered on the excise portal shall upload the details of custom bond to custom bond transfer of overseas liquor within the State and outside the State or outside State to within the State;
- (h) The importing units registered on the excise portal and doing business in the State will also be able to obtain liquor from the registered importing units of other States with the approval of the authorized officer. The details of receipt and dispatch of liquor in their custom bond along with re-ware housing certificate of the registered importing units will be uploaded on the portal within the stipulated time period.

9. Amendment of form FL-2—In the said rules, for existing form FL-2 set out in Column-I below, the form as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column I*Existing rule*F.L.-2

Licence for the Wholesale of foreign liquor and Wine
See Rule 6 (a)

Photo of Applicant	Photo of Co-applicant
--------------------	-----------------------

Photo of FL-2 Warehouse

Latitude /Longitude of FL-2 Warehouse

Licence Number

District

Name, Full address and aadhar number of Licensee(s)
.....

(i)

(ii)

Licence fee Rs..... (in figures) (in Words)

Security amount Rs... (in Figures) (in Words)

Description of premises (with boundries)

Locality & house number

Police station Tehsil

Column II*Rule as hereby substituted*F.L.-2

Licence for the Wholesale of foreign liquor and Wine
See Rule 6 (a)

Photo of Applicant	Photo of Co-applicant
--------------------	-----------------------

Photo of FL-2 Warehouse

Latitude /Longitude of FL-2 Warehouse

Licence Number

District

Name, Full address and aadhar number of Licensee(s)
.....

(i)

(ii)

Licence fee Rs..... (in figures) (in Words)

Security amount Rs... (in Figures) (in Words)

Description of premises (with boundries)

Locality & house number

Police station Tehsil

Column I
Existing rule

Boundries

North

South

East

West

Licence for the wholesale of Foreign Liquor and Wine (bottled in India and bottled in origin) is hereby granted to above licence holders(s) at (Place) in P.S. Tahsil in the District of w.e.f. from to March 31, 20 for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

The Licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or under provisions falling within the purview of rule-15 relating to the cancellation of licenses as laid down in The Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for wholesale of Foreign Liquor) Rule-2002 (As amended) or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall procure supplies of foreign liquor and wine in bottles/ cans/ tetra packs of the prescribed capacity having a code under Security System, approved by the Excise Department applied on them, from distilleries, vinteneries, who are licensed manufacturers of foreign liquor, and wine or other wholesale licenses of foreign liquor after making full payment of the cost of spirit and wine including privilege fee (consideration fee) and such other levies/taxes, cess etc. as leviable from time to time, through e-payment platform.
2. Licensee in (FL-2) shall procure supplies of foreign liquor/wine from BWFL-2A , BWFL-2C and BIO-1 after making full payment through e-payment platform for the cost of foreign liquor and wine including all levies/taxes, cess etc.

Column II

Rule as hereby substituted

Boundries

North

South

East

West

Licence for the wholesale of Foreign Liquor, Wine and **Low Strength Alcoholic Beverages** (bottled in India and bottled in origin) is hereby granted to above licence holders(s) at (Place) in P.S. Tahsil in the District of w.e.f. from to March 31, 20 for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

The Licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or under provisions falling within the purview of rule-15 relating to the cancellation of licenses as laid down in The Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for wholesale of Foreign Liquor) Rule-2002 (As amended) or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall procure supplies of foreign liquor and wine and **L.A.B in bottles/tetra packs** of the prescribed capacity having a code under Security System, approved by the Excise Department applied on them, from distilleries, vinteneries, who are licensed manufacturers of foreign liquor, and wine or other wholesale licenses of foreign liquor after making full payment of the cost of spirit and wine including privilege fee (consideration fee) and such other levies/taxes, cess etc. as leviable from time to time, through e-payment platform.
2. Licensee in (FL-2) shall procure supplies of foreign liquor/wine from BWFL-2A , BWFL-2C and BIO-1 after making full payment through e-payment platform for the cost of foreign liquor and wine including all levies/taxes, cess etc.

Column I*Existing rule*

3. Maximum retail price shall be printed on the label of bottles of foreign liquor and wine. The wholesale licence shall not charge more than the Maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner. If he do so, he will be penalized.
4. Sales shall only be made in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government.
5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register (FL-25A), which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produce for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and which shall also be uploaded online on the website of U.P. Excise Department through MIS at fixed interval.
6. Issue of foreign liquor and wine & Overseas imported liquor from the licensed premises of wholesale point shall be covered by computer generated transport pass in the form (FL-36A). Salesman, approved by licensee or by entitled authority and whose specimen of signature is preserved with the district Excise Officer, shall append signature on the transport pass. The first copy of transport pass shall be handed over to the purchaser, second copy shall be made available to District Excise Officer of the district within 24 hours and third copy of the transport pass shall be retained by wholesale sellers for the purposes of his record. Batch number, date of issue and details of a code under Security System shall be recorded by seller on the transit pass. The Validity of the pass shall be less than twice the time taking in reaching the destination point. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.
7. Licensee shall maintain a daily shop-wise register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issues made in prescribed form to the District Excise Officer. In case of issues to retail or wholesale licensee of other district of the charge, zone in state, if permitted by Excise Commissioner, the licensee shall also send a copy of the above statement to the concerned District Excise Officer on the same day and obtain a receipt thereof and also upload on the specified website of Excise Department.

Column II*Rule as hereby substituted*

3. Maximum retail price shall be printed **in visible bold font of 1x1 centimeter on the right top of** the label of bottles of foreign liquor and wine. The wholesale licence shall not charge more than the Maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner. If he do so, he will be penalized.
4. Sales shall only be made in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government.
5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register (FL-25A), which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produce for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and which shall also be uploaded online on the website of U.P. Excise Department through MIS at fixed interval.
6. Issue of foreign liquor and wine & Overseas imported liquor from the licensed premises of wholesale point shall be covered by computer generated transport pass in the form (FL-36A). Salesman, approved by licensee or by entitled authority and whose specimen of signature is preserved with the district Excise Officer, shall append signature on the transport pass. The first copy of transport pass shall be handed over to the purchaser, second copy shall be made available to District Excise Officer of the district within 24 hours and third copy of the transport pass shall be retained by wholesale sellers for the purposes of his record. Batch number, date of issue and details of a code under Security System shall be recorded by seller on the transit pass. The Validity of the pass shall be less than twice the time taking in reaching the destination point. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.
7. Licensee shall maintain a daily shop-wise register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issues made in prescribed form to the District Excise Officer. In case of issues to retail or wholesale licensee of other district of the charge, zone in state, if permitted by Excise Commissioner, the licensee shall also send a copy of the above statement to the concerned District Excise Officer on the same day and obtain a receipt thereof and also upload on the specified website of Excise Department.

Column I*Existing rule*

8. The licensee shall store entire stock of foreign liquor, wine in the licensed premises only.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "licenced wholesale vendor of foreign liquor" location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."

10. The licensee shall not employ any person as salesman who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain identity cards of the salesman bearing their photograph duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. A licensee holding a licence in form FL-2 may sell Foreign liquor and wine to the retail license holders of the district and to retail licensee holding licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 within the jurisdiction of Deputy Excise Commissioner of the concerned charge unless otherwise permitted by the Excise Commissioner.
12. Licensee will strictly ensure the sale of foreign liquor and wine in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government. It is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with the labels, a code under Security System /Shrink Sleeve, Pilfer proof Seals of aforesaid bottles.
13. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, color, essence, a code making apparatus, shrink sleeve, labels, capsule, seals or any other noxious material.
14. The premises in which a shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column II*Rule as hereby substituted*

8. The licensee shall store entire stock of foreign liquor, wine in the licensed premises only.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "licenced wholesale vendor of foreign liquor" location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."

10. The licensee shall not employ any person as salesman who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesman bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. A licensee holding a licence in form FL-2 may sell Foreign liquor and wine to the retail license holders of the district and to retail licensee holding licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 within the jurisdiction of Deputy Excise Commissioner of the concerned charge unless otherwise permitted by the Excise Commissioner.
12. Licensee will strictly ensure the sale of foreign liquor and wine in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government. It is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with the labels, a code under Security System /Shrink Sleeve, Pilfer proof Seals of aforesaid bottles.
13. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, color, essence, a code making apparatus, shrink sleeve, labels, capsule, seals or any other noxious material.
14. The premises in which a shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column I*Existing rule*

15. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. in the morning to 8.00 pm in the evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
16. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of foreign liquor, wine as well as of overseas imported foreign liquor and wine for which licence is granted

Provided that if FL-2B licence is sanctioned in favour of licensee, then such licence can be run in this premises
17. The licensee shall follow the order of Excise Commissioner issued from time to time.
18. Wholesaler shall keep all popular brands in sufficient quantity for sale.
19. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.
20. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.
21. Consignment of foreign liquor and wine from distilleries and vinteneries along with bonded warehouse BWFL-2A, BWFL-2C and BIO-1 shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. System.
22. Licensee shall not have any retail licence of country liquor, foreign liquor, beer or model shop.
23. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.
24. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.
25. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

Column II*Rule as hereby substituted*

15. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. in the morning to 8.00 pm in the evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
16. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of foreign liquor, wine as well as of overseas imported foreign liquor and wine for which licence is granted

Provided that if FL-2B licence is sanctioned in favour of licensee, then such licence can be run in this premises
17. The licensee shall follow the order of Excise Commissioner issued from time to time.
18. Wholesaler shall keep all popular brands in sufficient quantity for sale.
19. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.
20. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.
21. Consignment of foreign liquor and wine from distilleries and vinteneries along with bonded warehouse BWFL-2A, BWFL-2C and BIO-1 shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. System.
22. Licensee shall not have any retail licence of country liquor, foreign liquor, beer or model shop.
23. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.
24. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.
25. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

Column I*Existing rule*

26. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop who will accordingly issue Naukarnama in prescribed form.

Date

District

Excise Commissioner
Uttar Pradesh

Column II*Rule as hereby substituted*

26. The licensee shall submit the list of salesmen **for sale of liquor at his wholesale warehouse to the** Excise Commissioner/Officer authorized by the Excise Commissioner, **who shall accordingly submit the photocopy in the prescribed form to the District Excise Officer on payment of fees as prescribed by the State Government from time to time. Employment letter will be issued.**

Date

District

Excise Commissioner
Uttar Pradesh

10. Amendment of form FL-2B—In the said rules, for existing form FL-2B setout in Column-I below, the Form as setout in Column-II shall be substituted, namely :—

Column I*Existing rule*F.L.-2B

Licence for the Wholesale of Beer and low alcoholic beverages

See Rule 6 (a)

Photo of Applicant	Photo of Co-applicant
--------------------	-----------------------

Photo of FL-2B Warehouse

Latitude /Longitude of FL-2B Warehouse.....

Licence Number.....

District.....

Name, Full address and aadhar number of Licensee(s)

Licence fee Rs. (in figures) (in Words)

Security amount Rs. (in Figures) (in Words)

Description of premises (with boundaries)

Locality & house number

Police station Tahsil

Boundries

North

South

East

West

Column II*Rule as hereby substituted*F.L.-2B

Licence for the Wholesale of Beer, low alcoholic beverages

See Rule 6 (a)

Photo of Applicant	Photo of Co-applicant
--------------------	-----------------------

Photo of FL-2B Warehouse

Latitude /Longitude of FL-2B Warehouse

Licence Number

District

Name, Full address and aadhar number of Licensee(s)

Licence fee Rs. (in figures) (in Words)

Security amount Rs. (in Figures) (in Words)

Description of premises (with boundaries)

Locality & house number

Police station Tahsil

Boundries

North

South

East

West

Column I*Existing rule*

Licence for the wholesale of Beer/Draught beer and LAB (bottled in India and bottled in origin) hereby granted to above licence holders(s) at (Place) in P.S. Tahsil in the District of w.e.f. from to March 31, 20..... for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

The Licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any which or a conviction of any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act, 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence in security deposit, in addition to any penalties under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall procure supplies of beer in bottles and cans, as well as low alcoholic beverages in bottles of the prescribed capacity having a code under security system, approved by the Excise Department, applied on them, from distilleries, and breweries, who are licensed manufacturers of beer and low alcoholic beverages or other wholesale shops after full payment in advance of privilege fees and such other levies, as leviable from time to time through e-payment platform.
2. Licensee in (FL-2B) shall procure supplies of Beer and low alcoholic beverages from BWFL-2B, BWFL-2D and BIO-1 after making full payment through electronic means of the cost of beer and low alcoholic beverages including all levies/taxes, cess etc.
3. Maximum retail price shall be printed on the label of bottles and cans of beer and low alcoholic beverages. The wholesale licence shall not charge more than the Maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner otherwise he shall be penalized.
4. Sales shall only be made in quantities exceeding one or more than one sealed cartoons of bottles any one kind of beer, and Low Alcoholic Beverages.

Column II*Rule as hereby substituted*

Licence for the wholesale of Beer/Draught beer **(in cans/bottles etc)**, **wine** and L.A.B **(in bottle)** (bottled in India and bottled in origin) hereby granted to above licence holders(s) at (Place) in P.S. Tahsil in the District of w.e.f. from to March 31, 20..... for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

The Licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any which or a conviction of any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act, 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence in security deposit, in addition to any penalties under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall procure supplies of beer in bottles and cans, **etc** as well as low alcoholic beverages **and wine** in bottles of the prescribed capacity having a code under security system, approved by the Excise Department, applied on them, from distilleries, and breweries, who are licensed manufacturers of beer and low alcoholic beverages or other wholesale shops after full payment in advance of privilege fees and such other levies, as leviable from time to time through e-payment platform.
2. Licensee in (FL-2B) shall procure supplies of Beer and low alcoholic beverages from BWFL-2B, BWFL-2D and BIO-1 after making full payment through electronic means of the cost of beer and low alcoholic beverages including all levies/taxes, cess etc.
3. Maximum retail price shall be printed **in visible bold font of 1x1 centimeter on the right top of** on the label of bottles and cans of beer and low alcoholic beverages. The wholesale licence shall not charge more than the Maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner otherwise he shall be penalized.
4. Sales shall only be made in quantities exceeding one or more than one sealed cartoons **of beer**, Low Alcoholic Beverages. **and wine**.

Column I*Existing rule***Column II***Rule as hereby substituted*

- | | |
|---|---|
| <p>5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register (FL-25A), which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produced for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and which shall also be uploaded online on the website of Uttar Pradesh Excise Department through MIS (Management Information System) at fixed intervals.</p> <p>6. Issue of beer and low alcoholic beverages from the licenced premises of wholesale points shall be covered by computer generated transport pass in the Form F.L.-36A prescribed by the Excise Commissioner in triplicate. The first copy of transport pass shall be handed over to the licensee purchasing beer and low alcoholic beverages, and second copy shall be made available to District Excise Officer of the district latest within 24 hours and wholesale licensee shall retain the third copy of the transport pass to his record batch number, date of issue, time, quantity and number of code under security system shall be recorded on the transport pass. The Validity of the pass shall be less than twice the time taking in reaching the destination point. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.</p> <p>7. Licensee shall maintain a daily shop-wise register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issues made in prescribed form to the District Excise Officer. In case of issues to retail or wholesale licensee of other district of the charge, zone in state, if permitted by Excise Commissioner, the licensee shall also send a copy of the above statement to the concerned District Excise Officer on the same day and obtain a receipt thereof and also upload on the specific website of the Excise Department of Uttar Pradesh.</p> <p>8. The licensee shall store entire stock of beer, and low alcoholic beverages in the licenced premises only.</p> | <p>5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register (FL-25A), which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produced for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and which shall also be uploaded online on the website of Uttar Pradesh Excise Department through MIS (Management Information System) at fixed intervals.</p> <p>6. Issue of beer and low alcoholic beverages from the licenced premises of wholesale points shall be covered by computer generated transport pass in the Form F.L.-36A prescribed by the Excise Commissioner in triplicate. The first copy of transport pass shall be handed over to the licensee purchasing beer and low alcoholic beverages, and second copy shall be made available to District Excise Officer of the district latest within 24 hours and wholesale licensee shall retain the third copy of the transport pass to his record batch number, date of issue, time, quantity and number of code under security system shall be recorded on the transport pass. The Validity of the pass shall be less than twice the time taking in reaching the destination point. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.</p> <p>7. Licensee shall maintain a daily shop-wise register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issues made in prescribed form to the District Excise Officer. In case of issues to retail or wholesale licensee of other district of the charge, zone in state, if permitted by Excise Commissioner, the licensee shall also send a copy of the above statement to the concerned District Excise Officer on the same day and obtain a receipt thereof and also upload on the specific website of the Excise Department of Uttar Pradesh.</p> <p>8. The licensee shall store entire stock of beer, and low alcoholic beverages in the licenced premises only.</p> |
|---|---|

Column I*Existing rule*

9. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "licenced wholesale vendor of beer" location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."

10. The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain identity cards of the salesman bearing their photograph duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. A licensee holding a licence in form FL-2B may sell beer, and low alcoholic beverages to the retail license holders of the district and to retail licensee holding licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 within the jurisdiction of Deputy Excise Commissioner of the concerned charge unless otherwise permitted by the Excise Commissioner.
12. The License is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles and cans their labels a code under security system, Shrink Sleeve, Pilfer proof Seals.
13. The licensee shall not keep in his licence premises any spirit, caramel, color, essence, a code making apparatus, shrink sleeve, labels, capsule, seals and any other noxious material.
14. The premises in which a shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column II*Rule as hereby substituted*

9. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "licenced wholesale vendor of beer " location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."

10. The licensee shall not employ any person as salesman who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesman bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. A licensee holding a licence in form FL-2B may sell beer, and low alcoholic beverages to the retail license holders of the district and to retail licensee holding licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 within the jurisdiction of Deputy Excise Commissioner of the concerned charge unless otherwise permitted by the Excise Commissioner.
12. The License is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles and cans their labels a code under security system, Shrink Sleeve, Pilfer proof Seals.
13. The licensee shall not keep in his licence premises any spirit, caramel, color, essence, a code making apparatus, shrink sleeve, labels, capsule, seals and any other noxious material.
14. The premises in which a shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column I*Existing rule*

15. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
16. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of beer or low alcoholic beverages for which licence is granted.
17. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued from time to time.
18. Wholesaler shall keep all popular brands in sufficient quantity for sale
19. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.
20. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.
21. Consignment of beer and low alcoholic beverages from distilleries, breweries and bonded godown (BWFL-2B/BWFL-2D and BIO-1) shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. (Global Positioning System).
22. Licensee shall not have any retail licence of country liquor, Foreign Liquor, Beer or Model Shop.
23. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.
24. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.
25. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.
26. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop who will accordingly issue Naukarnama in prescribed form.

Date

District.....

Licensing Authority

Column II*Rule as hereby substituted*

15. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
16. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of beer or low alcoholic beverages for which licence is granted.
17. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued from time to time.
18. Wholesaler shall keep all popular brands in sufficient quantity for sale.
19. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.
20. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.
21. Consignment of beer and low alcoholic beverages from distilleries, breweries and bonded godown (BWFL-2B/BWFL-2D and BIO-1) shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. (Global Positioning System).
22. Licensee shall not have any retail licence of country liquor, Foreign Liquor, Beer or Model Shop.
23. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.
24. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.
25. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.
26. The licensee shall submit the list of salesmen **for sale of liquor at his wholesale warehouse to the Excise Commissioner/Officer authorized by the Excise Commissioner, who shall accordingly submit the photocopy in the prescribed form to the District Excise Officer on payment of fees as prescribed by the State Government from time to time. Employment letter will be issued.**

Date

District.....

Licensing Authority

11. Amendment of form BIO-1—In the said rules, for existing form BIO-1 setout in Column-I below, the Form as setout in Column-II shall be substituted, namely :—

Column I*Existing rule*

BIO-1

Licence for sale of Overseas foreign liquor

{See Rule 4 (f)}

Photo of Applicant	Photo of BIO-1 Custom Bond Warehouse	Photo of BIO-1 De-bonded Warehouse
--------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Latitude/Longitude of BIO-1 Custom bond Warehouse

Latitude/Longitude of BIO-1 De-bonded Warehouse

Licence Number

District

Name, Full address and aadhar number of license holder of importing unit

Licence fee Rs. (in figures) (in Words)

Security amount Rs...(in Figures) (in Words)-

Column II*Rule as hereby substituted*

BIO-1

Licence for sale of Overseas foreign liquor

{See Rule 4 (f)}

Photo of Applicant	Photo of BIO-1 Custom Bond Warehouse	Photo of BIO-1 De-bonded Warehouse
--------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Latitude /Longitude of BIO-1 Custom bond Warehouse

Latitude /Longitude of BIO-1 De-bonded Warehouse

Licence Number

District

Name, Full address and aadhar number of license holder of importing unit

Licence fee Rs. (in figures) (in Words)-

Security amount Rs...(in Figures) (in Words)-

Description of premises of importing unit having custom bond or allocation of space in custom bond (with boundaries)	Description of de-bonded warehouse premises of importing unit (with boundaries)
Locality & house number ...	Locality & house number ...
Police station	Police station
Tehsil	Tehsil
District	District
North	North
South	South
East	East
West	West

Licence for the wholesale of Overseas Foreign Liquor is hereby granted to above licence holder(s) at (Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. form to March 31, 20 for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

Description of premises of importing unit having custom bond or allocation of space in custom bond (with boundaries)	Description of de-bonded warehouse premises of importing unit (with boundaries)
Locality & house number	Locality & house number
Police station	Police station
Tehsil	Tehsil
District	District
North	North
South	South
East	East
West	West

Licence for the wholesale of Overseas Foreign Liquor is hereby granted to above licence holder(s) at (Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. form to March 31, 20 for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 6.

Column I*Existing rule*

The Licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties liable to be inflicted under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall import and store overseas foreign liquor under the rule-3, 4 and 5 of "Import of overseas foreign liquor rule Uttar Pradesh-2003".
2. Sales from de-bonded warehouse shall only be made in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government.
3. The brands of overseas foreign liquor shall be registered either by brand owner or its authorized principal importer or any other importing unit.
4. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register FL-25A which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produce for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and also be uploaded online on the portal of U.P. Excise Department.
5. The transport of Overseas foreign liquor from the de-bonded warehouse shall be covered by the FL-36 pass, this computer generated pass will be issued by licensee or by salesman approved by the authorized officer, whose specimen signature will be kept in the office of the District Excise Officer. First copy of the computer generated pass shall be given to the purchaser and second copy will be sent to the District Excise Officer of the district concerned within 24 hours. Third copy of the pass will be retained for record. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.
6. Licensee shall maintain a daily wholesale register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issue made in prescribed form to the district excise officer. In case of issues to retail licensee of state, information regarding issues shall be given to the district excise officer concerned and also upload on the portal of the Excise Department of U.P.

Column II*Rule as hereby substituted*

The Licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic substance Act 1985 shall render the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties liable to be inflicted under the relevant laws.

Terms and conditions.

1. The licensee shall import and store overseas foreign liquor under the rule-3, 4 and 5 of "Import of overseas foreign liquor rule Uttar Pradesh-2003".
2. Sales from de-bonded warehouse shall only be made in SKUs (Stock Keeping Units) of sizes/packs as prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the state government.
3. The brands of overseas foreign liquor shall be registered either by brand owner or its authorized principal importer or any other importing unit.
4. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed Form and register FL-25A which can be obtained from licensing authority on payment and the account register shall produce for inspection whenever asked by the competent authorities. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority and also be uploaded online on the portal of U.P. Excise Department.
5. The transport of Overseas foreign liquor from the de-bonded warehouse shall be covered by the FL-36 pass, this computer generated pass will be issued by licensee or by salesman approved by the authorized officer, whose specimen signature will be kept in the office of the District Excise Officer. First copy of the computer generated pass shall be given to the purchaser and second copy will be sent to the District Excise Officer of the district concerned within 24 hours. Third copy of the pass will be retained for record. Transport passes shall be verified online and online verification would be deemed sufficient as a proof of receipt of liquor.
6. Licensee shall maintain a daily wholesale register prescribed by the Excise Commissioner and shall send periodic returns of indents received and total issue made in prescribed form to the district excise officer. In case of issues to retail licensee of state, information regarding issues shall be given to the district excise officer concerned and also upload on the portal of the Excise Department of U.P.

Column I
Existing rule

7. The licensee shall keep Overseas foreign liquor only in the licenced premises.
8. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Wholesale licensee of Overseas foreign liquor" location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."
9. The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain identity cards of the salesman bearing their photograph duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
10. The licensee shall sell Overseas foreign liquor in bottles and cans with affixed code under security system to the wholesale licensee holding licence in form F.L.-2 and F.L.-2B as well as retail licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 on payment of permit fee, to other custom bonds on bill of entry and export to other states on payment of export permit fee.
11. The licensee will not deface in any circumstances the labels of bottle and cane, code under security system, PP cap or seal.
12. The licensee shall not keep in his licence premises any spirit, color, essence, code making apparatus, shring sleeve, labels, capsule, seals or any other noxious material.
13. The premises in the bond is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column II
Rule as hereby substituted

7. The licensee shall keep Overseas foreign liquor only in the licenced premises.
8. The licensee shall affix conspicuous signboard approved by Excise Commissioner at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Wholesale licensee of Overseas foreign liquor" location of the shop period of licence and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information's:-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."
9. The licensee shall not employ any person as salesman who is below **twenty-one** years of age or is suffering from any infectious and or contagious disease or has any criminal background or a woman. The licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesman bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
10. The licensee shall sell Overseas foreign liquor in bottles and cans with affixed code under security system to the wholesale licensee holding licence in form F.L.-2 and F.L.-2B as well as retail licence issued under The U.P Excise (Grant of Bar License) Rules 2021 and The U.P.Excise (Settlement of licenses for Premium retail vends of foreign liquor) Rules 2020 on payment of permit fee, to other custom bonds on bill of entry and export to other states on payment of export permit fee.
11. The licensee will not deface in any circumstances the labels of bottle and cane, code under security system, PP cap or seal.
12. The licensee shall not keep in his licence premises any spirit, color, essence, code making apparatus, shring sleeve, labels, capsule, seals or any other noxious material.
13. The premises in the bond is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

Column I
Existing rule

Column II
Rule as hereby substituted

- | | |
|---|---|
| <p>14. The de-bonded license premises shall be operated for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.</p> | <p>14. The de-bonded license premises shall be operated for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Collector. Collector or Licensing Authority may also order closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.</p> |
| <p>15. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of overseas foreign liquor for which licence is granted.</p> | <p>15. The licensee shall not carry out any other business in the premises except the business of overseas foreign liquor for which licence is granted.</p> |
| <p>16. The licensee shall follow the order of Excise Commissioner issued from time to time.</p> | <p>16. The licensee shall follow the order of Excise Commissioner issued from time to time.</p> |
| <p>17. Licensee shall keep popular brands of overseas foreign liquor in sufficient quantity for sale.</p> | <p>17. Licensee shall keep popular brands of overseas foreign liquor in sufficient quantity for sale.</p> |
| <p>18. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.</p> | <p>18. Licensee shall install C.C.T.V. cameras near opening gate and within godown of licenced premises which could easily be monitored from Excise Headquarter through I.P. address.</p> |
| <p>19. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.</p> | <p>19. The licensee shall make necessary arrangements for security system and fire fighting instrument.</p> |
| <p>20. Consignment of overseas foreign liquor shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. System.</p> | <p>20. Consignment of overseas foreign liquor shall be transported only through the vehicles fitted with G.P.S. System.</p> |
| <p>21. Licensee shall not have any licence for retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer or Model Shop.</p> | <p>21. Licensee shall not have any licence for retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer or Model Shop.</p> |
| <p>22. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.</p> | <p>22. Licensee shall employ computer operator for the upkeep and maintenance of records.</p> |
| <p>23. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.</p> | <p>23. Licensee shall install a computer in his godown premises and collect consolidated information in prescribed proformas and upload this on designated portal of the excise department.</p> |
| <p>24. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons/ monocarton of bottle after scanning of security code on them.</p> | <p>24. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons/ monocarton of bottle after scanning of security code on them.</p> |
| <p>25. Licensee may sell imported liquor to authorized persons within the state on gate pass in form FI-36 on payment of permit fees.</p> | <p>25. Licensee may sell imported liquor to authorized persons within the state on gate pass in form FI-36 on payment of permit fees.</p> |

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
<p>26. The licensee in form BIO-1 may export overseas foreign liquor to any person authorized by the designated authority of importing state, on payment of such fees as prescribed the Excise Commissioner, with previous approval of the state government.</p> <p>27. Such BIO-1 licence holder shall be under obligation to furnish the details of liquor being imported into and exported out of the state and such other details as prescribed by the Excise Commissioner.</p> <p>28. BIO-1 license holders will be affiliated to only one custom bond located in the same district.</p> <p>29. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop who will accordingly issue Naukarnama in prescribed form.</p>	<p>26. The licensee in form BIO-1 may export overseas foreign liquor to any person authorized by the designated authority of importing state, on payment of such fees as prescribed the Excise Commissioner, with previous approval of the state government.</p> <p>27. Such BIO-1 licence holder shall be under obligation to furnish the details of liquor being imported into and exported out of the state and such other details as prescribed by the Excise Commissioner.</p> <p>28. BIO-1 license holders will be affiliated to only one custom bond located in the same district.</p> <p>29. The licensee shall submit the list of salesmen for sale of liquor at his wholesale warehouse to the Excise Commissioner/Officer authorized by the Excise Commissioner, who shall accordingly submit the photocopy in the prescribed form to the District Excise Officer on payment of fees as prescribed by the State Government from time to time. Employment letter will be issued.</p>
Date	Date
Place Licensing Authority.	Place Licensing Authority. DR. ADARSH SINGH, <i>Excise Commissioner,</i> <i>Uttar Pradesh.</i>